

जन संपर्क एवं मीडिया समन्वयक कार्यालय
जामिया मिल्लिया इस्लामिया

प्रेस विज्ञप्ति

23 जुलाई 2019

जामिया ने वर्तमान अकादमिक सत्र में पेश किए चार नए कोर्स

जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने 2019-20 के अकादमिक सत्र से दो मास्टर डिग्री सहित चार नए कोर्स शुरू किए हैं। इसके साथ ही, चार अन्य कोर्स फिर से चालू किए गए हैं। इन सभी कोर्सेज़ में ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 07 अगस्त 2019 है।

विश्वविद्यालय ने एम. टेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सीटों की तादाद भी 18 से बढ़ा कर 30 कर दी है।

नए मास्टर डिग्री कोर्स में ईकनामिक्स विभाग में 40 सीट वाले मास्टर ऑफ साइंस इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एनालिटिक्स और एम. टेक. इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग: फुल टाइम: प्रोग्राम शुरू किए हैं। इसमें 12 सीट वाले मौजूदा अंशकालिक कोर्स का संयोजन होगा।

विश्वविद्यालय ने मल्टी डिप्लोमिनरी सेंटर फॉर रिसर्च एंड स्टडीज में 30 सीट वाले पी. जी. डिप्लोमा इन एडवांस डायग्नोस्टिक्स: सेल्फ फाइनेंस: पेश किया है। एमएमएजे अकेडमी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ ने तुर्की भाषा में एडवांस डिप्लोमा: पार्ट टाइम: शुरू किया है जिसके लिए 20 सीट होंगी।

जो चार कोर्स फिर से शुरू किए गए हैं, उनमें 20 सीट वाला, फारसी भाषा का एडवांस डिप्लोमा इन माडर्न परशियन कोर्स शामिल है। 10 सीट वाले एडवांस डिप्लोमा इन पश्तो को भी फिर से शुरू किया गया है। एमएमएजे अकेडमी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में 10 सीट वाले उज़्बेक डिप्लोमा प्रोग्राम और 20 सीट वाले सर्टिफिकेट कोर्स इन उज़्बेक को भी फिर से शुरू किया है।

जामिया निम्नलिखित विवरणों के मुताबिक इन कोर्सों के लिए प्रवेश परीक्षाओं को आयोजित करेगा:

बैंकिंग और वित्तीय विश्लेषिकी में मास्टर ऑफ साइंस: प्रवेश परीक्षा समय: 17 अगस्त, 2019 को सुबह दस बजे से दोपहर 12 बजे तक। इसके लिए पात्रता 55 प्रतिशत के साथ किसी भी

विषय में ग्रेजुएशन और मैथ्स, स्टैटिस्टिक, मैथमेटिकल इकोनामिक्स, इकोनोमेट्रिक्स में से कोई विषय 10 प्लस 2 या डिग्री लेवल पर रहा हो।

एम. टेक. एन्वाइरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग: फुल टाइम: 17 अगस्त, 2019: अपराह्न 2 बजे से शाम 4 बजे तक। योग्यता: सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जिकल, माइनिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में बेचलर डिग्री या कोई अन्य समकक्ष डिग्री। इसमें कम से कम 60 प्रतिशत अंक या उसके समतुल्य 10 प्वाइंट के स्केल पर 6.75 ग्रेड होने चाहिए।

पी.जी. डिप्लोमा इन मोलेकुलर डायगोनिस्टिक्स: सेल्फ फाइनेंसड: 18 अगस्त, 2019: 10 से पौने बारह बजे: योग्यता -: ए: जूलाजी, बी: केमिस्ट्री के साथ जूलाजी, सी: बायो केमिस्ट्री, डी: लाइफ साइंस, बायो साइंस: ई: माइक्रोबायोलॉजी या: एफ: बायोटेक्नोलॉजी। न्यूनतम 55 प्रतिशत या इसके समकक्ष ग्रेड के साथ।

एडवांस डिप्लोमा इन तुर्किश लैंग्वेज: पार्ट टाइम: -- 17 अगस्त, 2019: 10 से 11:45 तक: पात्रता- सीनियर सेकण्डरी-हायर सेकण्डरी या उसके समकक्ष स्कूल सर्टिफिकेट कोर्स, जिनमें तुर्की में डिप्लोमा के साथ सर्वश्रेष्ठ 5 पेपरों के कुल अंक 50 प्रतिशत से कम नहीं हों। या बी. ए. में तुर्की भाषा में डिप्लोमा या सी-1 लेवल टोमर कोर्स के साथ किन्हीं भी डिसिप्लिन में कुल अंक कम से कम 45 प्रतिशत हों।

एडवांस डिप्लोमा इन माडर्न पर्शियन: 18 अगस्त, 2019: दोपहर 2 बजे से शाम 3:45 तक: पात्रता: किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से बी. ए. फारसी या माडर्न पर्शियन में डिप्लोमा, जिसमें सर्वश्रेष्ठ 5 पेपर में कम से कम 45 प्रतिशत अंक होने चाहिए।

एडवांस डिप्लोमा इन पश्तो: 17 अगस्त, 2019: सुबह 10 से पौने बारह बजे तक: पात्रता: सर्वश्रेष्ठ पांच पेपर में कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ, सीनियर सेकण्डरी, हायर सेकण्डरी या समकक्ष स्कूल सर्टिफिकेट और साथ में पश्तो भाषा में डिप्लोमा।

डिप्लोमा प्रोग्राम इन उर्दूबेक: 18 अगस्त, 2019: सुबह 10 से पौने बारह बजे तक: पात्रता: किसी भी विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त सीनियर सेकण्डरी स्कूल एक्जामिनेशन: 10 प्लस 2: या इसके समकक्ष किसी भारतीय एजुकेशन बोर्ड अथवा यूनिवर्सिटी या विदेशी यूनिवर्सिटी से बेस्ट 5 पेपर में कुल 45 प्रतिशत अंक।

सर्टिफिकेट इन उज़्बेक: 18 अगस्त, 2019:दोपहर दो बजे से शाम पौने चार बजे: पात्रता: सीनियर सेकण्डरी स्कूल एक्ज़ामिनेशन:10 पल्स 2 या उसके समकक्ष किसी भारतीय एजुकेशन बोर्ड, यूनिवर्सिटी या विदेशी यूनिवर्सिटी से सर्वश्रेष्ठ पांच पेपर में कुल 45 प्रतिशत अंक ज़रूरी।

दीगर मालूमात के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट <https://www.jmi.ac.in> देखें ।

अहमद अज़ीम

जनसंपर्क अधिकारी एवं मीडिया संयोजक